



अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद

केंद्रीय कार्यालय- 3, मार्बल आर्च, सेनापती बापट मार्ग, माटुंगा रोड (प.रे.), माहिम, मुंबई - 400016.

दूरभाष : (022) 24306321 / 24378866 फैक्स : 24313938 ई-मेल : abvpkendra@gmail.com

दिनांक: 03 जून 2021

-: प्रेस विज्ञप्ति :-

पूर्वोत्तर राज्यों से जुड़े विषयों का हो एन.सी.ई.आर.टी. एवं विश्वविद्यालयीन पाठ्यक्रम में समावेश

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूर्वोत्तर क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं जैसे इतिहास, समाज, साहित्य, स्थानीय संस्कृति आदि विषयों पर एन.सी.ई.आर.टी. एवं विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में जोड़ने की माँग दोहराती है, जिससे पूर्वोत्तर राज्यों के प्रति सभी की समझ बढ़े।

सोशल मीडिया पर अरुणाचल प्रदेश को लेकर की गयी टिप्पणी से ध्यान आता है कि पूर्वोत्तर की संस्कृति, उसके गौरवशाली इतिहास की कम समझ के कारण व्यक्ति ऐसी टिप्पणी करता है। पूर्वोत्तर के स्वतंत्रता सेनानियों की गौरव गाथा, प्राचीन इतिहास, संस्कृति, सर्वांगीण विकास आदि विषयों पर पाठ्यक्रम जोड़ा जाए इसको लेकर राष्ट्रीय अधिवेशन, राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठकों में प्रस्ताव के माध्यम से माँग करती आयी है।

अभाविप की राष्ट्रीय महामंत्री सुश्री निधि त्रिपाठी ने कहा कि, “अभाविप ने समय समय पर सील यात्रा, नॉर्थ-ईस्ट यूथ पार्लमेंट, पूर्वोत्तर को जानो - भारत को जानो यात्रा आदि के माध्यम से पूर्वोत्तर को देश भर से जोड़ने का कार्य किया है। पिछली सरकारो ने पूर्वोत्तर के विषयों को गम्भीरता से नहीं लिया इसलिए एन.सी.ई.आर.टी. के पाठ्यक्रम में कभी भी पूर्वोत्तर को नहीं जोड़ा गया। अभी जब नैशनल करिकलम फ्रेमवर्क पर काम चल रहा है अभाविप की माँग है कि पूर्वोत्तर के प्रमुख विषयों पर पाठ्यक्रम में जोड़ा जाये।”

(यह प्रेस विज्ञप्ति केन्द्रीय कार्यालय मंत्री नीरज चौधरकर द्वारा जारी की गई है।)